



झाँसी पुलिस

दिनांक-06.07.2021

अवैध नाजायज कच्ची शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीणा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अरूण कुमार चौरसिया के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम प्रभारी निरीक्षक रक्सा श्री रजनेश कुमार चौहान के नेतृत्व में उ०नि० श्री मुकेश कुमार गौतम मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रक्सा पर पंजीकृत मु०अ०स० 152/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272 भा०द०वि० मे वांछित अभियुक्त भरत सिंह पुत्र नारायन सिंह नि० ग्राम बदनपुर थाना रक्सा जनपद झाँसी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.07.2021 को उ०नि० मुकेश कुमार गौतम मय हमराह का० 800 कन्हैयालाल व का० 817 अनिल सिंह के शान्ति व्यवस्था जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एव तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मु०अ०स० 152/2021 में वांछित चल रहा अपराधी भरत सिंह पुत्र नारायन सिंह नि० ग्राम बदनपुर थाना रक्सा जनपद झाँसी उम्र 40 वर्ष जो वर्तमान समय मे अपने घर के बाहर नीम के पेड के नीचे बैठा है जल्द किया जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर आज दिनांक 06.07.2021 को समय करीब 09.05 बजे भरत सिंह उपरोक्त को उसके घर के बाहर नीम के पेड के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

❖ भरत सिंह पुत्र नारायन सिंह नि० ग्राम बदनपुर थाना रक्सा जनपद झाँसी उम्र 40 वर्ष

पुलिस टीम का विवरण:-

❖ उ०नि० श्री मुकेश कुमार गौतम थाना रक्सा झाँसी

❖ का० 800 कन्हैयालाल थाना रक्सा झाँसी

❖ का० 817 अनिल कुमार थाना रक्सा झाँसी